

बांदा में 4800 आक्सीटोसिन इंजेक्शन और नकली बीड़ी की खेप बरामद

Tue, 23 Nov 2021 03:16 AM

नशेड़ियों की पहली पसंद आक्सीटोसिन इंजेक्शन जिसे पशुओं से दूध निकालने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद बाजार की विभिन्न दुकानों में बेधड़क बिक्री की जाती है। सोमवार को एसओजी और कोतवाली नगर पुलिस टीम ने क्योटरा स्थित एक किराना की दुकान में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 4800 इंजेक्शन प्रतिबंधित आक्सीटोसिन इंजेक्शन, नकली बीड़ी के बंडल बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई से प्रतिबंधित सामान बेचने वाले दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई।

एसपी लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि शहर के क्योटरा रेलवे क्रासिंग निवासी नरेंद्र गुप्ता किराना की दुकान किए हैं। सोमवार की शाम मुखबिर की सूचना पर एसओजी प्रभारी मयंक चंदेल और कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने छापा मारकर प्रतिबंधित आक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद कर लिया। इसके अलावा नकली बीड़ी के बंडल भी बरामद किए। पुलिस की इस छापामार कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। बताया जाता है कि आक्सीटोसिन इंजेक्शन दूध निकालने के लिए पशुओं को लगाया जाता है। इतना ही नहीं नशेड़ी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एसओजी प्रभारी मयंक चंदेल ने बताया कि यह इंजेक्शन प्रतिबंधित है। दुकानदार इसे चोरी छिपे बेच रहे थे। जबकि यह शासन से प्रतिबंधित है। छापामार कर 100 डिब्बे यानी कि 4800 आक्सीटोसिन इंजेक्शन और 518 बंडल नकली बीड़ी बरामद किया है। यह नकली बीड़ी नामचीन ब्रांडों की है। छापामार टीम में एसओजी कांस्टेबल महेश सिंह, नीतेश समाधिया, अश्वनी प्रताप सिंह, भूपेंद्र सिंह, भानूप्रकाश और कोतवाली के कांस्टेबल सैलेंद्र कुमार मौजूद रहे। तीन आरोपितों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

Source: <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/banda/story-4800-oxytocin-injection-and-fake-bidi-consignment-recovered-in-banda-5149719.html>